

CS/IT50041

Roll No. : .....

Nov. 2022

**ADVANCED COMPUTER NETWORKS**

निर्धारित समय : 3 घंटे]

Time allowed : 3 Hours]

[अधिकतम अंक : 60

[Maximum Marks : 60]

नोट : (i) प्रश्न-पत्र में तीन सेक्षण ए, बी एवं सी हैं।

Note : There are THREE sections in the paper A, B and C.

(ii) सेक्षण ए में प्रश्न संख्या 1 के सभी 10 भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग एक अंक का है एवं सभी 10 भाग वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के हैं।

Answer all the 10 parts of the question No. 1 in Section A. Each part carries one mark and all 10 parts have objective type questions.

(iii) सेक्षण बी के 8 प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है एवं इनका 5 लाइन / 50 शब्दों में उत्तर दीजिए।

Answer any 6 questions out of the 8 questions in Section B. Each question carries 3 marks and to be answered within 5 lines / 50 words.

(iv) सेक्षण सी के 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है एवं इनका 15 लाइन / 150 शब्दों में उत्तर दीजिए।

Answer any 4 questions out of the 6 questions in Section C. Each question carries 8 marks and to be answered within 15 lines / 150 words.

(v) प्रत्येक सेक्षण के सभी प्रश्नों को क्रमवार एक साथ हल कीजिए।

Solve all the questions of a section consecutively together.

(vi) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

Only English version is valid in case of difference in both the languages.

**सेक्षण - ए****Section - A**

1. (i) कौन सा एक वैध निजी आई.पी. पता नहीं है ?

- (a) 172.30.255.255      (b) 10.210.220.254  
 (c) 172.16.21.240      (d) 172.32.250.254

Which one is not a valid private IP address ?

- (a) 172.30.255.255      (b) 10.210.220.254  
 (c) 172.16.21.240      (d) 172.32.250.254



(ii) एक IPv4 पता \_\_\_\_\_ बिट्स का पता है, जिसे विभिन्न आई पी वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।

- (a) 256
- (b) 128
- (c) 16
- (d) 32

An IPv4 address is \_\_\_\_\_ bits address, which is categorized into different IP classes.

- (a) 256
- (b) 128
- (c) 16
- (d) 32

(iii) स्टार टोपोलॉजी के साथ वीसैट टर्मिनल ट्रांसमिट करने हेतु \_\_\_\_\_ का उपयोग करता है।

- (a) FDMA
- (b) FLST
- (c) CDMA
- (d) TDMA

With star topology the VSAT terminal transmits using \_\_\_\_\_.

- (a) FDMA
- (b) FLST
- (c) CDMA
- (d) TDMA

(iv) वाइमैक्स \_\_\_\_\_ संचार प्रदान करता है।

- (a) Simplex
- (b) Half duplex
- (c) Full duplex
- (d) इनमें से कोई नहीं

WiMAX provides \_\_\_\_\_ communication.

- (a) Simplex
- (b) Half duplex
- (c) Full duplex
- (d) None of the above

(v) SMI से तात्पर्य है :

- (a) Solution of management information
- (b) Structure of management information
- (c) Slots of management information
- (d) Sites of management information

SMI stands for

- (a) Solution of management information
- (b) Structure of management information
- (c) Slots of management information
- (d) Sites of management information

(vi) वी पी एन किन दो तकनीकों का एक साथ उपयोग करता है ?

- (a) SSL, tunneling
- (b) IPSec, SSL
- (c) IPSec, tunneling
- (d) इनमें से कोई नहीं

VPN uses which two simultaneous techniques ?

- (a) SSL, tunneling
- (b) IPSec, SSL
- (c) IPSec, tunneling
- (d) None of the above

(vii) एन्क्रिप्शन तकनीक जो एक संदेश का उपयोग, दूसरे संदेश को छिपाने के लिए करती है, कहलाती है :

- (a) MDA
- (b) Hashing
- (c) Steganography
- (d) इनमें से कोई नहीं

The encryption technique that uses one message to hide another message is called :

- (a) MDA
- (b) Hashing
- (c) Steganography
- (d) None of the above

(viii) कौन नेटवर्क सिम्युलेटर का एक उदाहरण है ?

- |                     |         |
|---------------------|---------|
| (a) Simul           | (b) TCL |
| (c) NS <sub>2</sub> | (d) C++ |

Which is an example of network simulator ?

- |                     |         |
|---------------------|---------|
| (a) Simul           | (b) TCL |
| (c) NS <sub>2</sub> | (d) C++ |

(ix) आई पी पते के संस्करण 6 में \_\_\_\_\_ बिट्स का उपयोग किया जाता है।

- |         |         |
|---------|---------|
| (a) 64  | (b) 32  |
| (c) 128 | (d) 256 |

\_\_\_\_\_ bits are used in version 6 of IP address.

- |         |         |
|---------|---------|
| (a) 64  | (b) 32  |
| (c) 128 | (d) 256 |

(x) निम्न में से कौन सा एक बिट उन्मुखी प्रोटोकॉल है ?

- |          |                   |
|----------|-------------------|
| (a) SSL  | (b) HTTP          |
| (c) HDLC | (d) उपर्युक्त सभी |

Which of the following is the bit oriented protocol ?

- |          |                      |
|----------|----------------------|
| (a) SSL  | (b) HTTP             |
| (c) HDLC | (d) All of the above |

(1×10)

### सेक्शन - बी

#### Section - B

2. उपनयन के कोई तीन लाभ लिखिए।

Write any three benefits of subnetting.

(3)

3. IPv4 एवं IPv6 में कोई तीन अन्तर लिखिए।

Write any three differences between IPv4 and IPv6.

(3)

4. फ्रेम रिले को संक्षेप में परिभाषित करें।

Define frame relay in short.

(3)

5. नेटवर्क रिडन्डेंसी की व्याख्या करें।

Explain network redundancy.

(3)

6. नेटवर्क सुरक्षा के कोई तीन लाभ लिखिए।

Write any three advantages of network security.

(3)

7. नेटवर्क सिम्युलेटर की आवश्यकता क्यों है ?

Why network simulator is needed ?

(3)

8. वीसैट संचार में बैंडविड्थ आरक्षण की व्याख्या करें।  
Explain bandwidth reservation in VSAT Communication. (3)
9. फ्रेम रिले की कार्यप्रणाली को संक्षेप में समझाइए।  
Explain working of frame relay in short. (3)

### सेक्शन - C Section - C

10. मल्टीकास्ट रूटिंग प्रोटोकॉलों को विस्तारपूर्वक समझाइए।  
Explain Multicast Routing Protocols in detail. (8)
11. वीसैट संचार क्या है ? स्टार एवं मैश वास्तुकला को समझाइए।  
What is VSAT Communication ? Explain Star and Mesh architectures. (8)
12. लोड बैलेंसर क्या होते हैं ? कैशिंग की अवधारणा को विस्तारपूर्वक समझाइए।  
What are Load balancers ? Explain the concept of caching in detail. (8)
13. वर्चुअल निजी नेटवर्क की अवधारणा को उपयुक्त उदाहरणों के साथ परिभाषित करें। वर्चुअल निजी नेटवर्क के प्रकारों की व्याख्या करें।  
Define the concept of virtual private networks with suitable example. Explain the types of virtual private networks. (8)
14. आई पी पता स्कीमा क्या है ? आई पी पते के विभिन्न वर्गों और श्रेणियों पर चर्चा करें।  
What is IP address schema ? Discuss the different classes and ranges of IP address. (8)
15. निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें :  
Write short notes on any **two** of the following : (8)
- (a) Multicasting
  - (b) MPLS
  - (c) RMON
- 

